

अपने घर में ऊर्जा और पैसे की बचत करने के लिए 5 अच्छे विचार

बिजली की कीमतों में वृद्धि होने के कारण बहुत से लोग अपने घरों में ऊर्जा का प्रयोग कम करने के तरीके खोजने में लगे हुए हैं। अच्छी खबर यह है कि ऐसे बहुत सारे सरल और निःशुल्क तरीके उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग हम अभी से ही कर सकते हैं। इनमें से कुछ सुझावों को आजमा कर और अपनी रोज़ाना आदतों में कुछ परिवर्तन करके आप बिना किसी परेशानी के पैसे बचा सकते हैं और वातावरण की मदद भी कर सकते हैं।

1. गर्म पानी का कम से कम प्रयोग

गर्म पानी औसत घरेलू ऊर्जा बिल के लगभग 25 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार होता है। इसे कम करने के तरीकों में शामिल हैं - ठंडे पानी में कपड़े धोना और पूरा भार हो जाने तक इंतज़ार करना, पूरा भरने पर ही बर्तन धोने की मशीन चलाना, कम प्रवाह वाला शावरहेड यानि फव्वारे लगाना (बस कुछ ही समय में इसकी कीमत वसूल हो जाएगी) और कम समय के लिए फव्वारे से नहाना।

2. कुशल उपकरणों का चयन

घरेलू बिजली के सामान आपके ऊर्जा बिल के लगभग एक-तिहाई के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यदि आप एक नया फ्रिज, फ्रीज़र, टेलीविजन, कपड़े धोने की मशीन, कपड़े सुखाने की मशीन, बर्तन धोने की मशीन या एयर-कंडीशनर खरीदने वाले हों, तो ऊर्जा मूल्यांकन लेबल के लिए देखें—जितने ज्यादा सितारे होंगे, ऊर्जा की खपत उतनी ही कम होगी। अधिक सितारों वाले नमूनों (मॉडलों) की कीमत कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक सस्ता, कम ऊर्जा-कुशल सामान चुनने से आखिर में लागत और भी ज्यादा पड़ती है।

Arabic
Bosnian
Chinese Simplified
Chinese Traditional
Croatian
Dari
Dinka
English
Farsi
Filipino
Greek
Hindi
Indonesian
Italian
Karen
Khmer
Kirundi
Korean
Kurmanji
Macedonian
Malay
Punjabi
Russian
Serbian
Shona
Sinhala
Somali
Spanish
Sudanese Arabic
Swahili
Thai
Turkish
Vietnamese

